



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 127]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1973/चैत्र 10, 1895

No. 127]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1973/CHAITRA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF COMMERCE

### ORDER

#### EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st March 1973

**S.O. 194(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Sixth Amendment Order, 1973.
2. In Part 'A' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968, item No. 32(i) shall be substituted by the following:—

“32(i) (a) Hand woven woollen carpets and woollen chain-stitched rugs manufactured in Eluru and Warrangal in Andhra Pradesh to be exported on consignment basis or at a floor price of less than Rs. 35.00 per sq. metre f.o.b.

(b) Hand woven woollen carpets and woollen chain-stitched rugs [except those mentioned against (i)(a) above] to be exported on consignment basis or at a floor price of less than Rs. 50.00 per sq. metre f.o.b.”

3. In Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order, 1968, item No. 23(i) shall be substituted by the following:—

“23(i)(a) Hand woven woollen carpets and woollen chain-stitched rugs manufactured in Eluru and Warrangal in Andhra Pradesh other than those mentioned against item 32(i)(a) in Part 'A'.

(b) Hand woven woollen carpets and woollen chain-stitched rugs [except those mentioned against (i)(a) above] other than those mentioned against item 32(i)(b) in Part 'A'.”

[No. E(C)O, 1968/AM(96).]

S. G. BOSE MULLICK,

Chief Controller of Imports & Exports.

## वाणिज्य मंत्रालय

## आदेश

## निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1973

एस० ओ० 194 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है; अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) छटा संशोधन आदेश, 1973 की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1 के भाग 'ए' में मद संख्या : 32 (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :—

“32(1)(ए) परेषण आधार पर या 35.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर जहाज पर्यन्त निशुल्क से कम की निम्नतम कीमत पर निर्यात की जाने वाली आन्ध्र प्रदेश में एलूरू और वारंगल में विनिर्मित हाथ से बुनी हुई ऊनी दरियां और ऊनी लड़ियों से सिले कालीन ।

(बी) परेषण आधार पर या 50.00 रुपये प्रति वर्ग मीटर जहाज पर्यन्त निशुल्क से कम की निम्नतम कीमत पर निर्यात की जाने वाली हाथ से बुनी हुई ऊनी दरियां और ऊनी लड़ियों से सिले कालीन [जो उपर्युक्त (ए) (1) के सामने उल्लिखित है उन्हें छोड़ कर] ”

3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1 के भाग बी में मद संख्या 23(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :—

“23(1) (ए) भाग “ए” में मद 32 (1) (ए) के सामने जो उल्लिखित है उन से भिन्न आन्ध्र प्रदेश में एलूरू और वारंगल में विनिर्मित हाथ से बुनी हुई ऊनी दरियां और ऊनी लड़ियों से सिले कालीन ।

(बी) भाग “ए” में मद 32 (1) (बी) के सामने जो उल्लिखित है उन से भिन्न हाथ से बुनी हुई ऊनी दरियां और ऊनी लड़ियों से सिले कालीन [उपर्युक्त (1) (ए) के सामने जो उल्लिखित है उनको छोड़ कर ।] ”

[संख्या ई(सी) ओ, 1968/ए एम(96)]

एस० जी० बोस मल्लिक,  
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।